

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 783]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2024 — अग्रहायण 15, शक 1946

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 5 दिसम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक/1723/22-2/2024/5550. — छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 10 की उप-धारा (2) सहपठित धारा 127 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्— द्वारा, खण्ड खड़गवां एवं बैकुण्ठपुर की सीमाओं में परिवर्तन उपरांत इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित जिले के अंतर्गत, कॉलम (3) में उल्लिखित खण्ड का पुनर्गठन करती है, जिसमें कॉलम (4) में उल्लिखित ग्राम पंचायत सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

अनुसूची

| स.क्र. | जिले का नाम | अधिनियम के प्रयोजन हेतु खण्ड का नाम | सम्मिलित ग्राम पंचायत के नाम |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मनेन्द्रगढ़— चिरमिरी— भरतपुर | खड़गवां | आमाडांड, अखराडांड, भुकभुकी, दुबछोला, जडहरी, कदरेवा, कौड़ीमार, मुकुन्दपुर, मेरो, उधनापुर, बरमपुर, बरदर, बेलबहरा, बेलकामार, बोड़ेमुड़ा, छोटेलुआ, देवाडांड, धनपुर, धवलपुर, दुग्गी, फुनगा, गिद्धमुड़ी, जरींधा, कटकोना, खड़गवां, कोड़ा, कोडांगी, कोटेया, लकरापारा, मझौली, मंगोरा, मेण्ड्रा, नेवरी, पैनारी, पेण्डी, पीपरबहरा, पोंडीडीह, रतनपुर, सैदा, सकड़ा, सलका, शिवपुर, सिंघत, ठग्गांव (तामडांड, करवा, कन्हारबहरा, पटमा, गणेशपुर, खंघौरा, इन्दरपुर, चिरमी, छोटेसाल्ही, पोंडी, पड़िता, सांवला, जिल्दा, जिलीबांध, कदमबहरा, भरदा, बचरा, तोलगा, सकरिया, अमका, छुरी, बारी, मुगुम, बैमा, बड़ेकलुआ, बड़ेसाल्ही, टेडमा, गेजी, सागरपुर, गढ़तर, बंजारीडांड, गोंविदपुर, सोंस को छोड़कर) |
| 2. | कोरिया | बैकुण्ठपुर | आमापारा, आमगांव, आनी, अमरपुर, बडगांव, बरपारा, बस्ती, भंडारपारा, भांडी, चारपारा, चेरवापारा, चिल्का, डोभापानी, डोहड़ा, गदबदी, गोल्हाघाट, जगतपुर, जामपानी, जामपारा, जनकपुर, जटासेमर, झरनापारा, जूनापारा, कदमनारा, |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|--|
| | | | <p>कंचनपुर, केनापारा, खांड़ा, खरवत, खुटरापारा, मझगवां, मनसुख, मोदीपारा, मुड़ीझरिया, नगर, नरकली, ओड़गी, पतरापाली, फुलपुर, पोटेडांड, रामपुर, रटगा, सागरपुर, सलबा, सलका, सारा, सरईगहना, सरडी, तलवापारा, उमझर, उरुमदुगा, विशुनपुर, अमहर, अंगा, बरदिया, बिलारो, बुडार, चम्पाझर, छिंदिया, चिरगुडा, डबरीपारा, डकईपारा, डुमरिया, गिरजापुर, जमड़ी, जमगहना, करहियाखांड, करजी, कसरा, कटकोना, कटोरा, खोडरी, खोंड, कुड़ेली, महोरा, मुरमा, पिपरा, पूटा, रामपुर प., रनई, सरभोका, सावांरावां, शिवपुर, सोरगा, तरगवां, टेमरी, तेन्दुआ, टेंगनी,</p> <p>(तामडांड, करवा, कन्हारबहरा, पटमा, गणेशपुर, खंधौरा, इन्दरपुर, चिरमी, छोटेसाल्ही, पोंडी, पड़िता, सांवला, जिल्दा, जिलीबांध, कदमबहरा, भरदा, बचरा, तोलगा, सकरिया, अमका, छुरी, बारी, मुगुम, बैमा, बड़ेकलुआ, बड़ेसाल्ही, टेडमा, गेजी, सागरपुर, गढ़तर, बंजारीडांड, गोंविदपुर, सोंस को सम्मिलित करते हुए)</p> |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तारन प्रकाश सिन्हा, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 5th December 2024

NOTIFICATION

No./1723/22-2/2024/5550. – In accordance with the provision contained in sub-section (2) of Section 10 read with Section 127 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, After Altering boundary of block Khadgwan and Baikunthpur, hereby, reconstituting the block mentioned in column (3) under district mentioned in column (2) of the following Schedule attached herewith, wherein Gram Panchayat mentioned in column (4) shall be included, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 127 of the said Adhiniyam, namely:-

SCHEDULE

| S. No. | Name of Districts | Name of Block for the purpose of Adhiniyam | Name of Gram Panchayat included |
|--------|---------------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur | Khadgwan | <p>Aamadand, Akharadand, Bhukbhuki, Dubchhola, Jadahari, Kadrewa, Kaudimar, Makundpur, Mero, Udhanapur, Barampur, Bardar, Belbahra, Belkamar, Bodemuda, Chhote Kalua, Devadnad, Dhanpur, Dhawalpur, Duggi, Funga, Giddhmudi, Jaraundha, Katkona, Khadgawan, Koda, Kondangi, Koteya, Lakdapara, Majhauri, Mangora, Mendra, Neori, Painari, Pendri, Piparbahara, Pondidih, Ratanpur, Saida, Sakada, Salka, Shivpur, Singhat, Thaggaon</p> <p>(Tamdand, Karwa, Kanharbahara, Patma, Ganeshpur, Khandhaura, Indarpur, Chirmi, chhotesalhi, Pondi, Pandita, Sawla, Jilda, Jilibandh, Kadambahara, Bharda, Bachra, Tolga, Sakariya, Amka, Chhuri, Bari, Mugum, Baima, Badekalua, Badesalhi, Tedma, Geji, Sagarpur, Gadhtar, Banjaridand, Govindpur, Sons be excluded)</p> |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--------|-------------|--|
| 2. | Koriya | Baikunthpur | <p>Aamapara, Aamganv, Aani, Amarpur, Badaganv, Barpara, Basti, Bhandarpara, Bhandi, Charpara, Cherwapara, Chilka, Dobhapani, Dohda, Gadbad, Golhaghat, Jagatpur, Jampani, Jampara, Janakpur, Jatasemar, Jharnapara, Junapara, Kadamnara, Kanchanpur, Kenapara, Khanda, Kharwat, Khutrapara, Majhaganwa, Mansukh, Modipara, Mudijhariya, Nagar, Narkeli, Odgi, Patrapali, Phoolpur, Potedand, Rampur, Ratga, Sagarpur, Salba, Salka, Sara, Saraigahna, Sardi, Talwapara, Umjhar, Urumduga, Vishunpur, Amhar, Anga, Bardiya, Bilaro, Bodar, Champajhar, Chhindiya, Chirguda, Dabripara, Dakaipara, Dumariya, Girjapur, Jamdi, Jamgahana, Karahiyakhand, Karji, Kasara, Katkona, Katora, Khodri, Khond, Kudeli, Mahora, Murma, Pipara, Poota, Rampur-P, Ranai, Sarbhoka, Savanravan, Shivpur, Sorga, Targawan, Temri, Tendua, Tengni</p> <p>(Tamdand, Karwa, Kanharbahara, Patma, Ganeshpur, Khandhaura, Indarpur, Chirmi, chhotesalhi, Pondi, Pandita, Sawla, Jilda, Jilibandh, Kadambahara, Bhada, Bachra, Tolga, Sakariya, Amka, Chhuri, Bari, Mugum, Baima, Badekalua, Badesalhi, Tedma, Geji, Sagarpur, Gadhtar, Banjaridand, Govindpur, Sons be included)</p> |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TARAN PRAKASH SINHA, Joint Secretary.